



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 04-11-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-11-04 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-11-05	2022-11-06	2022-11-07	2022-11-08	2022-11-09
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	70	70	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	300	230	230	130	200
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	1	3	2	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0-22.0 व 9.0 से 10.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 9 से 15 नवम्बर के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम, अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और आपके स्थान की कृषि मौसम संबंधी सलाह अब मेघदूत मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। कृपया निम्न लिंक से डाउनलोड करें: एंड्रॉयड: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot> आईओएस: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155> किसान भाई रबी फसलों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें व फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। गाय-भैंसों में "लंपी स्किन डिजीज" जो कि एक वायरल बीमारी है से बचाव हेतु पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	भावर क्षेत्र में, गेहूँ की समय से बुवाई हेतु असिंचित अवस्था में गेहूँ की उन्नतशील किस्मे जैसे-सी 306, पी बी डब्लू 175, पी बी डब्लू 65, पी बी डब्लू 396, पी बी डब्लू 299, पी बी डब्लू 644 की बुवाई करें। सिंचित अवस्था के गेहूँ की समय से बोने वाली प्रजातियों में से यूपी-2382,

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
	यूपी-2338, डब्लू एच-542, पीबी डब्लू 343, यूपी-2554, पीबी डब्लू-502, डीबी डब्लू-17, को 15 नवम्बर तक बुवाई करें व बीज दर 100 कि०ग्रा०/हे० रखें।
जौ	असिंचित दशा में, नीचे एवं मध्यम उंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जौ की फसल की बुवाई करें।
मसूर की दाल	मसूर की प्रजातियाँ जैसे एल-639, पी एल-639, पीएल-406, पंत मसूर4, पंत मसूर 5, डीपीएल-62 का नवम्बर के प्रथम पखवाड़े में बुवाई करें। मसूर की विलम्ब दशा में बुवाई दिसम्बर माह तक कर सकते हैं।
लहसुन	घाटी क्षेत्रों में लहसुन की बुवाई करें।
मूली	बीज उत्पादन हेतु मूली, शलजम, एवं गाजर की जड़ों का चुनाव कर नये खेतों में प्रतिरोपण करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	इस माह, किसान भाई प्याज की स्थानीय किस्मों के बीजों की बुवाई नर्सरी में कर सकते हैं।
गोभी	मध्यम उंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, फूलगोभी, बन्दगोभी बीज फसलों की पौध का प्रतिरोपण करें। स्नोबॉल फूलगोभी में यूरिया की आपूर्ति के साथ गुड़ाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	जिन पशुओं में एफ०एम०डी० (मुखपका खुरपका) रोग के टीके नहीं लगे हैं उन पशुओं में तत्काल टीकाकरण करा लें। ताकि आपका पशुधन स्वस्थ रहे और उससे लगातार आपको सही उत्पादन प्राप्त होता रहे। खुरपका मुखपका के लक्षण- आँखें लाल होना, तेज बुखार होना, उत्पादन तथा आहार ग्रहण करने की क्षमता में कमी होना, मुँह में छाले होना, लार गिरना समय से उपचार न मिलने की दशा में पशु के खुरों में घाँव बनना जिसकी वजह से पशुओं का लंगड़ाकर चलना आदि। रोग के लक्षण पता चलते ही रोगी पशुओं को अन्य स्वस्थ पशुओं से तत्काल अलग कर दें। निकटतम पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार उपचार करायें तथा स्वस्थ पशुओं को चारा देने के उपरांत ही अंत में पीड़ित पशुओं को मुलायम हरा चारा दें। तदुपरांत हाथों को लाल दवा से अच्छी तरह साफ करें।